

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015—फाल्गुन 29, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.